

**मीरजापुर पुलिस
प्रेस नोट**

दिनांक:08.01.2023

मोटरसाइकिल से लूट करने वाले अन्तर्जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश, 03 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूट की मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त चोरी की पल्सर मोटरसाइकिल सहित नकदी व चाकू बरामद —

थाना लालगंज जनपद मीरजापुर पर दिनांक:04.01.2023 को वादी दीपू त्रिपाठी पुत्र प्रभात कुमार त्रिपाठी निवासी कठवार थाना लालगंज जनपद मीरजापुर द्वारा लिखित तहरीर बावत अपने रिश्तेदार द्वारा मोबाइल से बात करते हुए कॉलेज जाते समय रास्ते में मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात व्यक्तियों के मोबाइल छीनकर भाग जाने के सम्बन्ध दी गयी। जिसके आधार पर थाना लालगंज पर मु0अ0सं0-04/2023 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'संतोष कुमार मिश्रा' द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए घटना का शीघ्र अनावरण करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना लालगंज को निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के अनुक्रम में क्षेत्राधिकारी लालगंज-दीक्षान्त राज के नेतृत्व में थाना लालगंज पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग के विवेचना के क्रम में भौतिक एवं इलेक्ट्रानिक/सर्विलांस साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक:08.01.2023 को प्र0नि0 थाना लालगंज-ज्ञानू प्रिया मय पुलिस बल द्वारा थाना लालगंज क्षेत्र से प्रकाश में आये 03 नफर अभियुक्तों 1.पंकज पटेल पुत्र महेन्द्र पटेल निवासी अमहा नौगवां थाना ड्रमण्डगंज जनपद मीरजापुर, 2.नैतिक सिंह उर्फ प्रियांश पुत्र प्रमोद सिंह निवासी मेहाजागीरथाना माण्डा जनपद प्रयागराज, 3.रविशंकर कुशवाहा पुत्र हिंचलाल कुशवाहा निवासी सकरो थाना कोरांव जनपद प्रयागराज को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित छीनी गयी मोबाइल, मोबाइल बिक्री के अवशेष धनराशि ₹ 900/-नकद, जामा तलाशी से 04 अदद मोबाइल, घटना कारित करने में प्रयुक्त एक अदद बिना नम्बर की पल्सर मोटरसाइकिल व अभियुक्त पंकज पटेल उपरोक्त के कब्जे से एक अदद चाकू बरामद किया गया। बरामद चाकू के सम्बन्ध में थाना लालगंज पर मु0अ0सं0-05/2023 धारा 4/25 आयुध अधिनियम बनाम पंकज पटेल पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

विवरण पूछताछ —

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में घटना कारित करना स्वीकार करते हुए बताया गया कि वे लोग पल्सर मोटरसाइकिल से इधर-उधर सड़कों पर घूमकर सुनसान जगह देखकर मोबाइल आदि को मौका पाकर छीनकर अथवा चाकू दिखाकर डराते हुए सामान लेकर भाग जाते हैं। छीनी गयी मोबाइलों को जनपद प्रयागराज के थाना कोरांव क्षेत्र अन्तर्गत सकरो निवासी रविशंकर कुशवाहा को बेच देते हैं जिससे प्राप्त धनराशि को आपस में बांट लेते हैं तथा पहचान न हो पाये इसके लिए बिना नम्बर की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। अभियुक्तों द्वारा घटना में प्रयुक्त उक्त मोटरसाइकिल को भी चोरी का होना बताया गया जिसे मध्य प्रदेश के रीवां जनपद से वर्ष-2022 में चोरी किये थे।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

- 1.पंकज पटेल पुत्र महेन्द्र पटेल निवासी अमहा नौगवां थाना ड्रमण्डगंज जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-20 वर्ष।
- 2.नैतिक सिंह उर्फ प्रियांश पुत्र प्रमोद सिंह निवासी मेहाजागीरथाना माण्डा जनपद प्रयागराज, उम्र करीब-19 वर्ष।
- 3.रविशंकर कुशवाहा पुत्र हिंचलाल कुशवाहा निवासी सकरो थाना कोरांव जनपद प्रयागराज, उम्र करीब-31 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग —

- 1.मु0अ0सं0-04/2023 धारा 392,411,413 भा.द.वि. व 41 द.प्र.सं. थाना लालगंज जनपद मीरजापुर।
- 2.मु0अ0सं0-05/2023 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना लालगंज जनपद मीरजापुर।

विवरण बरामदगी —

- 01 अदद मोबाइल लूट की व बिक्री के अवशेष ₹ 900/- नकद
- 01 अदद मोटरसाइकिल पल्सर बिना नम्बर(घटना में प्रयुक्त)
- 01 अदद चाकू (अभियुक्त पंकज पटेल के कब्जे से)
- 04 अदद मोबाइल (जामा तलाशी)

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

प्रभारी निरीक्षक थाना लालगंज-ज्ञानू प्रिया मय पुलिस टीम।

